

उत्तराखण्ड शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-1
संख्या-931 / XIX-1 / 18-141 खाद्य / 2006
देहरादून : दिनांक 30 जुलाई, 2018

कार्यालय- ज्ञाप

एतद्वारा सुश्री निधि रावत, उपायुक्त (मुख्यालय बाध्य प्रतीक्षा) को उपायुक्त, गढ़वाल संभाग के पद पर तैनात किया जाता है।

2- सुश्री निधि रावत, तैनाती स्थल पर तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करें।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-931 / XIX-1 / 18-141 खाद्य / 2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, देहरादून
- 3- आयुक्त, कुमाँऊ / गढ़वाल, नैनीताल / देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून / पौड़ी।
- 5- सुश्री निधि रावत, उपायुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया नव तैनाती स्थल पर तत्काल योगदान आख्या देते हुए एक प्रति शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(एन0एस0डु0रियाल)
उप सचिव।